



भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

(भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 के अंतर्गत स्थापित)

प्रधान कार्यालय: सिडबी टावर, 15, अशोक मार्ग, लखनऊ - 226 001

30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़)

विवरण	30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही	30 सितंबर, 2018 को समाप्त तदनुरूपी छमाही	31 मार्च, 2019 को समाप्त पिछला लेखावर्ष
	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1. अर्जित व्याज (क)+(ख)+(ग)+(घ)	5316	4240	9482
(क) अग्रिमो/बिलों पर व्याज/बट्टा	5101	4168	9128
(ख) निवेशों पर आय	13	22	53
(ग) भा.रि.बैंक में अतिशेष राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर व्याज	202	50	301
(घ) अन्य	-	-	-
2. अन्य आय	452	217	434
3. कुल आय (1+2)	5768	4457	9916
4. व्याज व्यय	3762	3108	6903
5. परिचालन व्यय (i)+(ii)	303	245	512
(i) कर्मचारी लागत	192	183	369
(ii) अन्य परिचालन व्यय	111	62	143
6. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय को छोड़कर कुल व्यय (4+5)	4065	3353	7415
7. प्रावधानों और आकस्मिक व्यय से पूर्व परिचालन लाभ (3-6)	1703	1104	2501
8. प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय (पुनरांकन पश्चात निवल)	791	53	-2
9. असाधारण मदें	371	-	-
10. सामान्य गतिविधियों से कर पूर्व लाभ (+)/ हानि (-) (7-8+9)	1283	1051	2503
11. कर संबंधी व्यय (डीटीए / डीटीएल के पश्चात निवल)	297	159	551
12. सामान्य गतिविधियों से कर पश्चात निवल लाभ (+) / हानि (-) (10-11)	986	892	1952
13. असाधारण मदें (कर व्यय घटाकर)	-	-	-
14. अवधि का निवल लाभ (+) / हानि (-) (12-13)	986	892	1952
15. चुकता ईक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर)	532	532	532
16. आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	15863	14078	15863
17. विश्लेषणात्मक अनुपात			
(i) पूंजी पर्याप्तता अनुपात	23.25%	25.46%	27.11%
(ii) प्रति शेयर आमदनी	18.53	16.78	36.70*
18. गैर-निष्पादक आस्ति अनुपात			
क) गैर-निष्पादक आस्ति को सकल राशि	1148.90	805.03	867.91
ख) गैर-निष्पादक आस्ति को निवल राशि	625.47	199.30	292.54
ग) सकल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.79	0.61	0.63
घ) निवल गैर-निष्पादक आस्ति का %	0.43	0.15	0.21
च) आस्तियों पर प्रतिफल (कर पश्चात)	0.63%	0.71%	1.43%*

*वार्षिकीकृत

टिप्पणियाँ:

- बैंक इन वित्तीय परिणामों को तैयार करने में उन्हीं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का अनुपालन कर रहा है, जैसा कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए किया गया था।
- निदेशक मंडल द्वारा 09 नवंबर, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में उपर्युक्त परिणाम अनुमोदित किए गए हैं।
- 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए 'प्रावधान (कर के अलावा) और आकस्मिक व्यय' चल प्रावधान, निवेश मूल्यहास संबंधी प्रावधान आदि के प्रतिलेखन के बाद निवल प्रावधान है।
- भारतीय रिजर्व बैंक से जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के आधार पर, गैर-निष्पादक आस्तियों, मानक आस्तियों तथा निवेश संबंधी मूल्यहास के लिए आवश्यक प्रावधान करने के बाद, 30 सितंबर, 2019 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम निकाले गए हैं। आयकर, आस्थगित कर तथा कर्मचारी लाभ सहित अन्य सामान्य व आवश्यक प्रावधान अनुमानित / समानुपातिक आधार पर किए गए हैं और वर्षांत में समायोजन के अधीन है।
- असाधारण मदें एफसी अंतरण समायोजन खाते में पड़े हुए ₹371 करोड़ के अतिरिक्त देयता / प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पुनरांकित किया गया है क्योंकि अब इसे बही में अग्रानीत करने की अपेक्षा नहीं है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में, बैंक ने गैर-निष्पादक आस्ति / गैर-निष्पादक निवेश हेतु निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुरूप, विशिष्ट प्रावधान के लिए ₹28.57 करोड़ के चल प्रावधान का उपयोग किया है।
- निवल अनर्जक आस्तियों के परिकलन के लिए चल प्रावधान को नहीं लिया गया है।
- निवेशकों को शिकायत संबंधी स्थिति: यथा 01 जुलाई, 2019 को 2 शिकायतें लंबित थीं। तिमाही के दौरान, निवेशकों से 9 शिकायतें प्राप्त हुईं एवं 11 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया। तदनुसार, यथा 30 सितंबर, 2019 को कोई शिकायत निस्तारण के लिए लंबित नहीं है।
- पिछली अवधि के आँकड़ों को वर्तमान अवधि के वार्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकतानुसार पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 15 मई, 2019 के पत्र के अनुसार, अगली सूचना तक एआईएफआई के लिए आईएनडी-एएस का क्रियाव्ययन आस्थगित कर दिया गया है।
- सांविधिक लेखापरीक्षकों ने उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षा की है।

निदेशक मंडल के आदेश से
ह/-

(मोहम्मद मुस्तफा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांक : 09 नवंबर, 2019

स्थान : नई दिल्ली